



28th August, 2023

Ref. No.: 102339/S/O/L-1/2023-24

The Manager,
Listing/Market Operation,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,
Bandra – Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai – 400 051

The Manager,
Corporate Relationship Department,
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

NSE Code - ASAHIINDIA

BSE Code - 515030

Sub: Newspaper Advertisement for Convening 38th Annual General Meeting through VC / OAVM, Book Closure, Remote E-Voting Information, Manner of E-mail ID Registration and Bank Details Registration for Dividend Purposes

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of Newspaper Advertisement published in compliance with Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, Circular No. 02/2022 dated 5th May, 2022 and Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs, intimating that 38th Annual General Meeting of the Company will be held on Monday, 18th September, 2023 through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), manner of registration of e-mail ID for obtaining Annual Report & Bank details for direct transfer of Dividend to shareholders' Bank account.

The said Advertisement were published in "Business Standard" and "Veer Arjun, Delhi", on 28th August, 2023 regarding Notice of ensuing Annual General Meeting of the Company, Book Closure and Remote E-Voting information.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly,
For Asahi India Glass Limited,

Gopal Ganatra
Executive Director
General Counsel & Company Secretary
Membership No.: F7090

Encl.: As above

Asahi India Glass Ltd.
Corporate Office: Unit No. 301-308,
1101-1104, 3rd and 11th Floor, Tower-D,
Global Business Park, M. G. Road,
Gurugram- 122002 Haryana (India)
Tel.: +91 124 4062212-19
Fax: +91 124 4062244, 4062288
website: www.aisglass.com
Corporate Identity Number: L26102DL1984PLC019542

**Registered Office: A-2/10, 1st Floor, WHS DDA Marble Market,
Kirti Nagar, New Delhi – 110015**

NOTICE



Beware of fake Telegram, Facebook and other social media entities claiming to be owned by NJ India Invest Private Limited.

There may be fake Telegram, Facebook and other social media entities claiming to be owned by NJ India Invest Private Limited or NJ Wealth ("NJ"). Please do not get misled by them and their luring schemes. NJ India Invest Private Limited / NJ Wealth does not hold any official Telegram account.

It has been observed that few fake groups & profiles are pretending to be owned by our company to mislead and investors. Our company is in no way associated with this fake group/communication channel and shall not be held liable for any losses whatsoever.

NJ India Invest Private Limited is only present on the following social media platforms with the handles/channel names as mentioned below :

Twitter : <https://twitter.com/NJWealth>
Instagram : <https://www.instagram.com/njwealth.in/> & <https://www.instagram.com/njwealth.partner/>
YouTube : <https://www.youtube.com/@NJWealth0155> & <https://www.youtube.com/@njwealthpartners>
Facebook : <https://www.facebook.com/njwealth.in/> & <https://www.facebook.com/njwealthpartner/>
LinkedIn : <https://www.linkedin.com/showcase/nj-wealth/> & <https://www.linkedin.com/company/nj-group/>

NJ India Invest Private Limited does not promise or misguide investor/public in any form or on any social platforms for abnormal earnings or returns while investing in any investment products.

We request social media users and investors to report fraudulent groups on Telegram in case they come across them to abuse@telegram.org or with us at email@njgroup.in.

Please visit our official website www.njgroup.in for any authorized and official information about our products and offerings.

ASAHI INDIA GLASS LIMITED

CIN: L26102DL1984PLCO19542

Registered Office: A-2/10, 1st Floor, WHS DDA Marble Market, Kirti Nagar, New Delhi - 110 015. Phone: (011) 49454900
Corporate Office: 3rd Floor, Tower-D, Global Business Park, Mehrauli - Gurgaon Road, Gurugram - 122 002 (Haryana)
Phone: (0124) 4062212-19, Fax: (0124) 4062244/88
Email: investorrelations@aisglass.com, Website: www.aisglass.com

NOTICE OF 38th ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC / OAVM, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 38th (Thirty Eighth) Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on **Monday, the 18th day of September, 2023 at 3:00 pm IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio Video Visual Means (OAVM)**, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 5th May, 2020, Circular No. 02/2022 dated 5th May, 2022, and Circular No. 10/2022 dated 28th December, 2022, respectively issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023, issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), to transact the Ordinary and Special Business(es) as detailed in the Notice sent to the Members at their registered email IDs with the Depository Participant(s) and / or RTA together with Audited Financial Statements including Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended 31st March, 2023.

The final dividend as recommended by the Board of Directors, if declared at the AGM, would be paid to such shareholders whose name appears in Register of Members / Statement of Beneficial Ownership furnished by the Depositories viz. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL), as on 11th September, 2023. The final dividend, if declared at the AGM, will be paid on or after 24th September, 2023.

The information and instructions for members attending AGM through VC / OAVM are explained in Note No. 25 of the Notice of AGM. Members attending AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Act.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/242 dated 9th December, 2020 and Regulation 44 of Listing Regulations and Secretarial Standard on General Meeting (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is pleased to provide its Members with facility of "remote e-voting" before the meeting starts (facility to cast vote using an electronic voting system from a place other than venue of a general meeting), through e-voting services provided by CDSL to enable its Members to cast their votes in respect of business(es) to be transacted at the 38th AGM. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date of Monday, 11th September, 2023 may cast their vote electronically on the Ordinary and Special Business(es) as set out in the Notice of the 38th AGM through electronic voting system of CDSL. The Notice of AGM was sent electronically on 27th August, 2023. The remote e-voting shall commence on Thursday, 14th September, 2023 at 9:00 a.m. and shall end on Sunday, 17th September, 2023 at 5:00 p.m. The remote e-voting module shall be disabled for voting after 5:00 p.m. on 17th September, 2023 and once the vote is cast by the member, the member shall not be entitled to change it subsequently.

Persons who have acquired shares and have become Member after sending of Notice and holding shares as on cut-off date i.e. 11th September, 2023, may follow the same instructions for e-voting as mentioned in the notice of AGM. Any Member who has exercised his right of vote through remote e-voting will be entitled to attend 38th AGM but will not be entitled to vote again in the meeting.

In accordance with the relevant circulars, the Notice of the 38th AGM and the Annual Report for the financial year 2022-23 comprising Financial Statements, Board's Report, Auditor's Report and other documents sent by email to all those members, whose email address are registered with the Depository Participant(s) and / or RTA. The same is also available on the website of the Company www.aisglass.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com. The aforesaid documents are also available on website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33.
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no: 022-4886 7000 and 022-2499 7000

To enable participation in the remote e-voting process by those shareholders to whom the Notice of the AGM could not be dispatched, may temporarily get their email ID registered at Company's email ID investorrelations@aisglass.com. It is clarified that for permanent registration of email address, the members are however requested to register their email address, in respect of electronic holdings with the Depository through the concerned Depository Participant(s) and in respect of physical holdings with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited.

Manner of casting vote(s) through e-voting: The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its members to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of AGM. The Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting") to those members who could not cast their vote(s) by remote e-voting. The detailed procedure for e-voting before the AGM ("remote e-voting"), as well as during the AGM ("e-voting") and participation in the AGM through VC / OAVM, has been provided in the Notes to the Notice of the AGM.

Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM and manner of casting votes through e-voting.

Registration of Bank Details for physical shareholders:

The Members of the Company holding Equity Shares of the Company in physical form and who have not registered their bank details can get the same registered with Link Intime India Pvt. Ltd. (Email ID: nt.helpdesk@linkintime.co.in). The members are requested to provide details such as Name, Folio Number, Certificate number, PAN, Email ID along with the copy of the cheque leaf containing bank name and branch, type of account, bank account number, MICR details and IFSC code in PDF or JPEG format. It is very important that the shareholder should submit the request letter duly signed. RTA will verify the documents provided and will only take on records for all valid cases.

Pursuant to provisions of Section 91 of the Act, and Regulation 42 of the Listing Regulations, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Tuesday, 12th September, 2023 to Monday, 18th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM and Dividend of the Company.

For Asahi India Glass Limited,

Sd/-
Gopal Ganatra
Executive Director

Date: 27th August, 2023
Place: Gurugram
General Counsel Company Secretary
Membership No. F790

CELEBRITY FASHIONS LIMITED

Registered office: 50F/IV/II/2, 3rd Main Road, MEPT/SEZ, Tambaram, Chennai - 600 045. Tel: 91-44-4343 2200/4343 2900. Email: investorrelations@celebritygroup.com
Website: www.celebritygroup.com / CIN: L12121TN1988PLCO15655

NOTICE OF THE 34th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on **Monday, 18th September 2023 at 02.30 P.M. IST** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the 34th AGM dated 14th August, 2023 ("Notice").

The AGM will be convened in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 20/2020 dated 05th May 2022 and 10/2022 dated 28th December 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May 2022, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05th January 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India.

Notice convening the AGM and the Annual Report containing Board's Report, Auditor's Report, Audited financial statements for the financial year 2022-23, has been sent on 26th August, 2023, through electronic mode only, to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/RTA/Depositories as on 18th August, 2023. The requirement of sending physical copies of the Annual Report has been dispensed with vide relevant circulars.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide e-voting facility (remote e-voting and e-voting at the AGM). The members are also informed that:

- The cut-off date to determine eligible members to cast votes by e-voting is **Monday, 11th September, 2023**. The remote e-voting shall be open for 04 (Four) days commencing at 9.00 a.m. on Thursday, 14th September 2023 and ends at 5.00 pm on Sunday, 17th September, 2023.
- Members may participate in the AGM even after exercising their right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again at the AGM. In case, if a member, cast his vote in remote e-voting as well as through e-voting at the AGM, the vote cast through remote e-voting only shall be considered.
- Any person who acquires shares of the Company after dispatch of this Notice and holds shares as of the cut-off date i.e. 11th September, 2023 are requested to refer the e-voting instructions in the Notice. However, if already registered with CDSL for remote e-voting, then the existing user ID and password can be used for casting vote.
- The notice containing instruction for remote e-voting and e-voting at the AGM is enclosed with the Annual Report which is available on the website of the Company www.celebritygroup.com and e-voting website of CDSL www.evotingindia.com and the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.
- For any queries/grievances or issues regarding attending the AGM and remote e-voting, please refer to Frequently Asked Questions ("FAQ") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or reach to Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) of Central Depository Services (India) Limited Helpdesk: 1800225533. E-mail: helpdesk.evoting@cdslindia.com or to Link Intime India Private Limited (RTA) email@linkintime.co.in / Toll free : 18001020878) or to the undersigned by email at investorrelations@celebritygroup.com.

The Company has appointed M/s. BP & Associates, Practicing Company Secretaries, Chennai as the Scrutinizer for conducting the e-voting process (i.e. remote e-voting and e-voting at the AGM) in a fair and transparent manner.

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Tuesday, 12th September, 2023 to Monday, 18th September, 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For CELEBRITY FASHIONS LIMITED

Sd/-
A. Rishi Kumar
Company Secretary

Date: 26th August, 2023

Place: Chennai

ACCELERATEBS INDIA LIMITED

(Formerly known as AccelerateBS India Private Limited)

CIN: U72200MH2022PLC390266

Regd. Office: 604, Quantum Tower, Off S.V. Road, Ram Baug, Malad (West), Mumbai - 400064 Tel.: 9653851592

E-mail: investors@acceleratebs.com | Website: <https://www.acceleratebs.com>

NOTICE OF THE FIRST (1st) ANNUAL GENERAL MEETING (AGM)

Notice is hereby given that the First (1st) Annual General Meeting (AGM) of AccelerateBS India Limited (Formerly known as AccelerateBS India Private Limited) ("the Company") will be held on **Friday, September 22, 2023, at 03:00 pm (IST)** through Video Conference facility (VC) / Other Audio-Visual means ("OAVM"), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder, read with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 19/2021 dated December 08, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021, 20/2022 dated May 5, 2022 and 10/2022 dated December 28, 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars"). Further Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 and SEBI HO /CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 5, 2023, respectively issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "SEBI Circulars") along with any other applicable Circulars issued by MCA and/or SEBI in this regard, to transact the business set out in the Notice convening the 1st AGM, without the physical presence of the Members at a common venue.

The Company has sent the Notice convening the 1st AGM only through electronic mode on Monday, August 28, 2023, to Members whose email addresses are registered with the Company/ Registrar & Share Transfer agent (Registrar/RTA)/ Depository Participant(s) (DPs). The Notice of the 1st AGM along with the Annual Report for the financial period from September 09, 2022 to March 31, 2023, of the Company is available on the website of the company at www.acceleratebs.com, the Stock Exchanges i.e., BSE Limited (BSE) at www.bseindia.com as well as on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com. The physical copies of the Annual Report for the financial period from September 09, 2022 to March 31, 2023 will be sent to those Members who request the same.

Members may attend and participate in the 1st AGM only through VCOAVM facility, as indicated in the Notice of the 1st AGM. Please note that there will be no provision for attending and participating in person at the 1st AGM of the Company.

Notice is hereby further given that pursuant to provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 ("Listing Regulation") that the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from Tuesday, September 19, 2023, to Thursday, September 21, 2023 (both days inclusive) for the purpose of 1st AGM of the Company.

Instruction for remote e-voting before and during the 1st AGM:
In compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time. Secretarial Standard - 2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the Listing Regulations, as amended, the Company is providing the Members the facility to exercise their right to vote at the 1st AGM by electronic means only before as well as during the 1st AGM in respect of the business to be transacted at the 1st AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL for facilitating voting through electronic means.

Comprehensive guidance on (a) remote e-voting before the 1st AGM, (b) participation in and joining of the 1st AGM through VCOAVM, (c) e-voting during the 1st AGM and (d) registration of email IDs, are available in the Notice of the 1st AGM, which can be accessed and downloaded on the Company's website.

A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the Depository and becomes a Member of the Company after the Notice is sent through e-mail and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, September 15, 2023 ("Cut-Off Date") shall be entitled to avail of the facility of remote e-voting provided by NSDL, either prior to the 1st AGM or remote e-voting during the 1st AGM on all the resolutions set forth in the Notice of 1st AGM. The remote e-voting period commences on Tuesday, September 19, 2023 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Thursday, September 21, 2023 at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The facility of e-voting will also be made available during the 1st AGM and the Members attending the 1st AGM, who have not cast their votes by remote e-voting, will be eligible to cast their votes through e-voting during the 1st AGM. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of the Members holding Equity Shares shall be in the same proportion to paid-up share capital held by them in the Company as on the cut-off date, that is Friday, September 15, 2023.

Registration of e-mail address with Company DP and obtaining User ID and Password for e-voting

Members holding shares in physical mode and who have not updated their e-mail addresses with the Company are requested to update the same by writing to them at investors@acceleratebs.com. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/ update their e-mail addresses with their respective DPs.

Any person holding Shares in physical form and Non-individual shareholders, who acquire shares of the Company and become Members of the Company after the Notice is sent through e-mail and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, September 15, 2023, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or in issuer/RTA. However, if the Member is already registered with NSDL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing user ID and password for casting his/her vote. If member has forgotten their password, they can reset their password by using "Forgot User Details/Password" or "Physical User Reset Password" options available on www.evoting.nsdl.com or call on 022-4886 7000 and 022-2499 7000. In case of Individual Shareholders holding securities in demat mode who acquire shares of the Company and become Members of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e., Friday, September 15, 2023, may follow the steps mentioned in the Notice of the convening 1st AGM under "Access to NSDL e-Voting system", other methods for obtaining/procuring user IDs and passwords for e-voting provided in the 1st AGM Notice.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the download section of www.evotingindia.com or call on 022-4886 7000 and 022-2499 7000 or send a request to Ms. Pranjata Pawle NSDL at evoting@nsdl.co.in.

Helpdesk for Individual Members holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e., NSDL and CDSL are as given below:

Login type	Helpdesk Details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at 022-4886 7000 and 022-2499 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33

Mrs. Anita Sandeep Desai (Membership No. FCS 4180) / Ms. Anita Desai & Co, Practising Company Secretaries has been appointed by the Board of Directors of the Company as the Scrutinizer for scrutinizing the remote e-voting process as well as for e-voting during the 1st AGM, in a fair and transparent manner.

The results of the remote e-voting and votes cast during the 1st AGM shall be declared not later than two working days from the conclusion of the 1st AGM. The results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website at www.acceleratebs.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com immediately after their declaration, and communicated to the Stock Exchanges where the Company's Shares are listed viz BSE and be made available on their websites at www.bseindia.com.

For ACCELERATEBS INDIA LIMITED
Sd/-
Kunal Shah
Managing Director

Place: Mumbai

Date: August 25, 2023

NHPC Limited

(A Government of India Enterprise)

CIN: L40101HR1975GOI032564

Regd. Office : NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad-121003 (Haryana)

E-mail : sbd-co@nhpc.nic.in, EPABX.No.:0129-2588110/2588500

Website: www.nhpcindia.com

FORM NO. CAA_2

[Pursuant to Section 230 (3) and rule 6 and 7]

Company Petition No. 24/6 of 2022 CL-III
In the Matter of Scheme of Arrangement between Lanco Teesta Hydro Power Limited (Transferor Company) with NHPC Limited (Transferee Company)

Notice and Advertisement of notice of the meeting of Unsecured Creditors, Secured Creditors and Members

Notice is hereby given that by an order dated the 23rd February 2023 the Ministry of Corporate Affairs ("MCA/Central Government") has directed separate meetings of Secured Creditors, Unsecured Creditors and Equity Shareholders of NHPC Limited (Company) for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the scheme of arrangement proposed to be made between Lanco Teesta Hydro Power Limited (Transferor Company) with NHPC Limited (Transferee Company).

In pursuance of the said order and as directed therein further notice is hereby given that a meeting of Members of the company will be held through Video Conferencing Mode or other Audio-Visual Mode (OAVM) on Friday the 29th day of September 2023 at 12:30 O'clock and the Members are requested to attend the same.

Further in pursuance of the said order and as directed therein notice is hereby given that a meeting of Secured Creditors of the company having a debt value of Rs. 1,00,00,000 or more (as on 15.07.2022) will be held through Video Conferencing Mode or other Audio-Visual Mode (OAVM) on Friday the 29th day of September 2023 at 14:30 O'clock and the Secured Creditors are requested to attend the same.

Further in pursuance of the said order and as directed therein notice is hereby given that a meeting of Unsecured Creditors of the company having a debt value of Rs. 1,00,00,000 or more (as on 15.07.2022) will be held through Video Conferencing Mode or other Audio-Visual Mode (OAVM) on Friday the 29th day of September 2023 at 16:00 O'clock and the Unsecured Creditors are requested to attend the same.

Copies of the said arrangement, and of the statement under section 230 can be obtained free of charge at the registered office of the company situated at NHPC Office Complex Sector-33 Faridabad Haryana-121003 India.

The MCA vide order dated 23rd February 2023 and letter dated 16th August 2023 has appointed Shri Mohammad Afzal as Chairperson of the Creditors & Shareholders meeting. The above-mentioned compromise or arrangement or amalgamation, if approved by the meeting, will be subject to the subsequent approval of the MCA.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the Meetings and other documents will be sent only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/RTA/ Depository Participant(s). The Notice of the meetings will also be available on the Company's website at www.nhpcindia.com, on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, and on the website of e-voting service provider i.e. M/s National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

Manner of casting vote(s) through e-voting by members/ Creditors:

Members and Creditors are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice and in particular, instructions for joining the Meeting, manner of casting vote through remote e-voting and e-voting during the Meeting.

The manner of remote e-voting or through e-voting system by the members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for the members who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of the Meeting. The details will also be made available on the website of the Company.

The login credentials for casting the votes through e-voting shall be made available through the various modes as may be provided in the Notice, which will be sent through email and made available on website of the Company.

Dated this 24th day of August 2023

Mohammad Afzal

Joint Secretary (Hydro)

Min

कुछ और राजनीतिक दल इंडिया में शामिल होंगे : नीतीश

पटना, (भाषा)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) की आगामी बैठक के दौरान कुछ और राजनीतिक दलों के इसमें शामिल होने की संभावना है। भाजपा के विरोधी दलों को साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे नीतीश ने इंडिया से जुड़ने वाले संभावित दलों के नामों का खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि बैठक के दौरान सीट-बंटवारे जैसे चुनाव संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

पटना में पत्रकारों से मुखातिब नीतीश ने कहा, हम मुंबई में आगामी बैठक के दौरान अगले साल होने वाले आम चुनाव को लेकर इंडिया की रणनीति पर चर्चा करेंगे। सीट-बंटवारे जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और कई अन्य एजेंडों को अंतिम रूप दिया जाएगा। कुछ और राजनीतिक दल हमारे गठबंधन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, मैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को एकजुट करना चाहता हूँ। मैं इस दिशा में काम कर रहा हूँ... मुझे अपने लिए कोई इच्छा नहीं है।

लोकसभा चुनाव में केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मुकाबला करने के लिए गठित 26 दलीय विपक्षी गठबंधन की एक महीने से भी



बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

कम समय में दो बार बैठक हो चुकी है। विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक 23 जून को पटना में और दूसरी बैठक 17-18 जुलाई को बंगलुरु में हुई थी। इंडिया 31 अगस्त और एक सितंबर को मुंबई में अपनी तीसरी बैठक आयोजित करने के लिए तैयार है।

इस बीच, नीतीश ने पटना के बेली रोड पर हड़ताली मोड़ के पास लोहिया पथ चक्र के निर्माण कार्य का जायजा लिया और भरोसा दिलाया कि यह परियोजना दुर्गा पूजा से पहले पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से इस परियोजना की निगरानी कर रहा हूँ। इसे दुर्गा पूजा से पहले पूरा कर लिया जाएगा। इसके पूरा होने से इलाके में यातायात की आवाजाही आसान हो जाएगी।

रक्षा मंत्री के जम्मू में नॉर्थ टेक संगोष्ठी में पहुंचने के आसार

जम्मू, (भाषा)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां अगले महीने आयोजित होने वाली नॉर्थ टेक संगोष्ठी में भाग ले सकते हैं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत 11 सितंबर से होगी जिसमें 150 से अधिक विक्रेता अपने-अपने सैन्य उपकरण प्रदर्शित करेंगे। सांबा जिले में देवक नदी पर निर्मित एक पुल के अलावा हवाई पट्टी और सुरंग समेत सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की 74 अन्य परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए रक्षा मंत्रालय के जम्मू क्षेत्र में 12 सितंबर से दो दिवसीय दौरा करने की संभावना है। जम्मू स्थित रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल ने कहा कि जम्मू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में आयोजित होने वाली संगोष्ठी एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम है जो सेना और उद्योग के बीच भागीदारी के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करेगा। लेफ्टिनेंट कर्नल बर्तवाल ने कहा कि संगोष्ठी में लगभग 150 विक्रेताओं के भाग लेने की उम्मीद है जिसमें 11 और 12 सितंबर को एक सेमिनार और प्रदर्शनी का आयोजन शामिल है और समापन दिवस पर सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा।

सम्पत्ति टीम द्वारा तैयार की जाने वाली सबसे उत्तम चॉकलेट जैसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। उन्होंने कहा, हालांकि, पूरे भारत में अनगिनत अन्य छोटे और मध्यम उद्यमों की तरह मोडीज भी गम्बर सिंह टेक्स का बोझ झेल रही है। राहुल ने जोर देते हुए कहा कि सामूहिक रूप से भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इन एमएसएमई को बचाने के लिए जीएसटी की एक समान दर लागू करने और औद्योगिक केंद्र बनाने जैसे अनिवार्य उपाय करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस तरह की महिला नेतृत्व वाली टीम हरसंभव समर्थन की हदकरा है।

In The Court of Ms. Neha Priya, Commercial Civil Judge-cum-Addl. Rent Controller-cum-Administrative Civil Judge South District, Room No. 204, Saket Court Complex, New Delhi. Succ. P. No. 91/2023

NDOH: 03.10.2023 Smt. Savita Vs State & Ors. (Memo of Origin)
Smt. Savita W/o Rahul D/o Late Sh. Satpal R/o H. No. C-250, J.J. Camp, Tigr, New Delhi-110062

Also at: H. No. F-472, J.J. Camp Tigr, New Delhi.Petitioners Versus
1. The State, Through SDM, Kalkaji, Near Batra Hospital, New Delhi.

2. The Deputy Commissioner South Municipal Corporation of Delhi, South, South Zone, Green Park, New Delhi-110016.

3. Smt. Ajay Shree W/o Mukesh D/o Late Sh. Satpal, R/o H. No. F-472, J.J. Camp, Tigr, New Delhi-110062.

4. Smt. Lata Rani W/o Shailendra Kumar, D/o Late Sh. Satpal, R/o H. No. Ward No. 1, House No. 15, Mohalla Harijan Balmiki, Purana Kasba, Bagpat, Uttar Pradesh-250609.

5. Sh. Ajay Kumar S/o Late Sh. Satpal, R/o H. No. I-253, J.J. Camp, Tigr, New Delhi-110062.

6. Sh. Ajeet Kumar, S/o Late Sh. Satpal, R/o H. No. C-250, J.J. Camp, Tigr, New Delhi-110062.

7. Sh. Vijay Kumar S/o Late Sh. Satpal, R/o H. No. C-250, J.J. Camp, Tigr, New Delhi-110062.

.....Respondents
To, The State/General Public
Whereas, an application U/S 372 of the Indian Succession Act, 1925 has been made by **Smt. Savita**, claiming to be successor of **W/o Late Sh. Satpal**, for grant of Succession Certificate in respect of debts/securities of said deceased. And whereas the said applicant shall come for hearing on **03rd October 2023 at 10.00 A.M.** Therefore, the public at large is hereby given notice if any person has objection to the grant of succession certificate in favour of the said applicant, he may appear and file objections in writing, in person or through duly appointed pleader, on the said date and time. Given under my hand and the seal of the Court on this **17th day August 2023.**

Seal **Sd/- Commercial Civil Judge cum Addl. Rent Controller cum Administrative Civil Judge South District, Saket Court Complex, New Delhi.**

प्रियंका को मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव शीर्ष नेतृत्व को भेजेगे : अजय राय

लखनऊ, (भाषा)। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि प्रदेश इकाई पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्ढा को वाराणसी से चुनाव लड़ाने की इच्छा है और वह इसके लिए जल्द ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एक प्रस्ताव भेजेगी।

राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष को कांग्रेस के नेतृत्व में ही अगला लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में लोग भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का विकल्प खोजेंगे, जो निश्चित रूप से कांग्रेस ही है। हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने वाले राय ने रविवार को कहा, हम चाहते हैं कि प्रियंका जी बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ें। इसके लिए हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जल्द ही एक प्रस्ताव भेजेगी। उन्होंने कहा, 'बैसे प्रियंका गांधी जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहें, लड़ सकती है। हम पूरी ताकत लगाकर उन्हें चुनाव जिताने, लेकिन हमारी खाहिश है कि वह वाराणसी से मैदान में उतरे।'

वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। वह वर्ष 2019 में लगातार दूसरी बार वाराणसी से लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए थे। उनका 2024 में भी वाराणसी से ही चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। प्रियंका को मोदी के मुकाबले खड़ा करने की इच्छा से कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है, इस बारे में पूछे जाने पर राय ने कहा, 'बैस यही संदेश देने की कोशिश है कि उनके (मोदी) सामने कोई मजबूती से खड़ा हुआ है। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र पिछले तीन दशक से भी ज्यादा समय से भाजपा का गढ़ बना हुआ है। हालांकि, वह 2004 में यह सीट एक बार कांग्रेस के पास आई थी। वर्ष 1991, 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनावों तथा मध्यावधि चुनावों में वाराणसी सीट पर भाजपा को जीत हासिल हुई थी। इसके बाद वह 2004 में कांग्रेस के राजेश कुमार मिश्रा इस सीट से सांसद निर्वाचित हुए, लेकिन वर्ष 2009 में मुरली मनोहर जोशी ने कांग्रेस से यह सीट जीत ली। उसके बाद वर्ष 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा सांसद चुने गए। प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष अजय

राय (53) वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में वाराणसी में कांग्रेस के टिकट पर मोदी को चुनौती दे चुके हैं। 2014 के चुनाव में उन्हें 75,614 वोट मिले थे, जबकि 2019 में उन्हें 1,52,548 मत हासिल हुए थे। वह इससे पहले वर्ष 2009 में इसी सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के टिकट पर मैदान में उतरे थे और तब उन्हें 1,23,874 वोट प्राप्त हुए थे। बाहुबली की छवि रखने वाले अजय राय पांच बार विधायक भी रह चुके हैं।

अमेठी से पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की संभावनाओं के बारे में राय ने कहा, 'अमेठी की जनता खुद मांग कर रही है कि राहुल जी इसी सीट से चुनाव लड़ें। जनता भाजपा सांसद स्मृति इरानी की वादाखिलाफियों और कार्यप्रणाली से बेहद नाराज है। वह अब राहुल को एक बार फिर अपने सांसद के रूप में देखना चाहती है।'

राय (53) वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में वाराणसी में कांग्रेस के टिकट पर मोदी को चुनौती दे चुके हैं। 2014 के चुनाव में उन्हें 75,614 वोट मिले थे, जबकि 2019 में उन्हें 1,52,548 मत हासिल हुए थे। वह इससे पहले वर्ष 2009 में इसी सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के टिकट पर मैदान में उतरे थे और तब उन्हें 1,23,874 वोट प्राप्त हुए थे। बाहुबली की छवि रखने वाले अजय राय पांच बार विधायक भी रह चुके हैं।

अमेठी की जनता खुद मांग कर रही है कि राहुल जी इसी सीट से चुनाव लड़ें। जनता भाजपा सांसद स्मृति इरानी की वादाखिलाफियों और कार्यप्रणाली से बेहद नाराज है। वह अब राहुल को एक बार फिर अपने सांसद के रूप में देखना चाहती है।

अमेठी की जनता खुद मांग कर रही है कि राहुल जी इसी सीट से चुनाव लड़ें। जनता भाजपा सांसद स्मृति इरानी की वादाखिलाफियों और कार्यप्रणाली से बेहद नाराज है। वह अब राहुल को एक बार फिर अपने सांसद के रूप में देखना चाहती है।

अमेठी की जनता खुद मांग कर रही है कि राहुल जी इसी सीट से चुनाव लड़ें। जनता भाजपा सांसद स्मृति इरानी की वादाखिलाफियों और कार्यप्रणाली से बेहद नाराज है। वह अब राहुल को एक बार फिर अपने सांसद के रूप में देखना चाहती है।

अमेठी की जनता खुद मांग कर रही है कि राहुल जी इसी सीट से चुनाव लड़ें। जनता भाजपा सांसद स्मृति इरानी की वादाखिलाफियों और कार्यप्रणाली से बेहद नाराज है। वह अब राहुल को एक बार फिर अपने सांसद के रूप में देखना चाहती है।

अमेठी की जनता खुद मांग कर रही है कि राहुल जी इसी सीट से चुनाव लड़ें। जनता भाजपा सांसद स्मृति इरानी की वादाखिलाफियों और कार्यप्रणाली से बेहद नाराज है। वह अब राहुल को एक बार फिर अपने सांसद के रूप में देखना चाहती है।

अमेठी की जनता खुद मांग कर रही है कि राहुल जी इसी सीट से चुनाव लड़ें। जनता भाजपा सांसद स्मृति इरानी की वादाखिलाफियों और कार्यप्रणाली से बेहद नाराज है। वह अब राहुल को एक बार फिर अपने सांसद के रूप में देखना चाहती है।

अमेठी की जनता खुद मांग कर रही है कि राहुल जी इसी सीट से चुनाव लड़ें। जनता भाजपा सांसद स्मृति इरानी की वादाखिलाफियों और कार्यप्रणाली से बेहद नाराज है। वह अब राहुल को एक बार फिर अपने सांसद के रूप में देखना चाहती है।

अमेठी की जनता खुद मांग कर रही है कि राहुल जी इसी सीट से चुनाव लड़ें। जनता भाजपा सांसद स्मृति इरानी की वादाखिलाफियों और कार्यप्रणाली से बेहद नाराज है। वह अब राहुल को एक बार फिर अपने सांसद के रूप में देखना चाहती है।

अमेठी की जनता खुद मांग कर रही है कि राहुल जी इसी सीट से चुनाव लड़ें। जनता भाजपा सांसद स्मृति इरानी की वादाखिलाफियों और कार्यप्रणाली से बेहद नाराज है। वह अब राहुल को एक बार फिर अपने सांसद के रूप में देखना चाहती है।

अमेठी की जनता खुद मांग कर रही है कि राहुल जी इसी सीट से चुनाव लड़ें। जनता भाजपा सांसद स्मृति इरानी की वादाखिलाफियों और कार्यप्रणाली से बेहद नाराज है। वह अब राहुल को एक बार फिर अपने सांसद के रूप में देखना चाहती है।

अमेठी की जनता खुद मांग कर रही है कि राहुल जी इसी सीट से चुनाव लड़ें। जनता भाजपा सांसद स्मृति इरानी की वादाखिलाफियों और कार्यप्रणाली से बेहद नाराज है। वह अब राहुल को एक बार फिर अपने सांसद के रूप में देखना चाहती है।

अमेठी की जनता खुद मांग कर रही है कि राहुल जी इसी सीट से चुनाव लड़ें। जनता भाजपा सांसद स्मृति इरानी की वादाखिलाफियों और कार्यप्रणाली से बेहद नाराज है। वह अब राहुल को एक बार फिर अपने सांसद के रूप में देखना चाहती है।

भारत में कोरोना के 44 नए मामले

नई दिल्ली, (विप्र)। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 44 नए मामले सामने आए हैं और उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या अब 1,502 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार अब तक के रिकॉर्ड को संकलित करने के मुताबिक, कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक 5,31,928 मरीजों की मौत हो चुकी है। मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, अब तक संक्रमण के 4.49 करोड़ मामले सामने आए हैं, जिनमें से 4,44,63,533 लोग इससे उबर चुके हैं। संक्रमण से उबरने की राष्ट्रीय दर 98.81 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.18 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना सं. 02-ईसीटीसी/जीबीएन/2023-24: ई-टेंडर, चार भाग-1 व भाग-2 अधोलिखित विवरण के अनुसार आमंत्रित किया जाता है। निविदा प्राप्त होने/खोले जाने का दिनांक व समय 11.09.2023, 14.00 बजे एवं 12.09.2023, 14.00 बजे है। निविदिकरण संख्या 01, का का नाम 2023 केवी उपकेन्द्र सेक्टर-129, नोएडा पर मैसर्स मैक्स स्क्वायर प्र. लि. हेतु एक अदद 33 केवी एआई.एस. 'बे' का जानपदिय निर्माण कार्य। निविदा प्रपत्र ई-प्रोक्वोरमेंट वेबसाइट http://etender.up.nic.in से ही स्वीकार किए जाएंगे। उक्त निविदा से संबंधित विवरण यथा तकनीकी विशिष्टीकरण, कार्यविधि, धरोहर राशि, निविदा प्रपत्र की लागत इत्यादि एवं किसी प्रकार के शोधन, परिवर्तन, सुधार पत्र हेतु http://etender.up.nic.in अथवा www.upptel.org पर लब्ध कराए। "राष्ट्रहित में बिजली बचाए" अधिष्ठासी अभियंता, विद्युत जानपद पारेण मण्डल, उप्र पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. नोएडा, गौतमबुद्धनगर पत्रांक: 1283/26.08.2023

Sh. Deepak Vats, Administrative Civil Judge, Additional Rent Controller, Commercial Civil Judge, South-East, Room No. 203, Saket Court, New Delhi. SS-64/2023

Master Gomsingh Singh Through his Guardian Smt. Poonam R/o C 393, Chirag Delhi, New Delhi-110017.

Also at: Village-Silapur Khadar, Rajeev Colony, Distt- Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201304.Applicant/Petitioner Versus

1. State, Through SDM, South East Govt of NCT of Delhi.

2. Sh. Suresh S/o Late Sh. Prem Raj, R/o Village-Phoolpur, P.O. Gangeswari, Tehsil-Hasanpur, Distt-Amroha, U.P.

3. Sh. Kar Singh S/o Late Sh. Prem Raj, R/o Village-Phoolpur, P.O. Gangeswari, Tehsil-Hasanpur, Distt-Amroha, U.P.

4. Sh. Pappu S/o Late Sh. Prem Raj, R/o Village-Phoolpur, P.O. Gangeswari, Tehsil-Hasanpur, Distt-Amroha, U.P.

5. Smt. Shashi W/o Sh. Dharampal, D/o Late Sh. Prem Raj, R/o Village Madan Fatehpur P.O. Orangabad Taharpur, P.S. AaharTehsil Shyana, Block-Uncha Gaon, Distt- Bulandshahr, U.P.

6. Smt. Bhagnali W/o Sh. Lakhmi Chand, D/o Late Sh. Prem Raj, R/o Village-Phoolpur, P.O. Gangeswari, Tehsil-Hasanpur, Distt-Amroha-U.P.

7. Smt. Keshwati W/o Imrat Singh, D/o Late Sh. Prem Raj, R/o Village-Phoolpur, P.O. Gangeswari, Tehsil-Hasanpur, Distt- Amroha, U.P.

8. Delhi Jal Board, Govt. of NCT of Delhi, Okhla Sewage Treatment Plant, Mathura Road, New Delhi-110025.Respondents
Whereas, an application U/S 372 of the Indian Succession Act, 1925 has been made by **Master Gomsingh Through His Guardian Smt. Poonam** successor of **Late Gajraj Singh** for grant of Succession Certificate in respect of debts/securities of deceased. And whereas the said applicant shall come for hearing on **27.09.2023 at 10.00 A.M.** Therefore, the public at large is hereby given notice if any person has objection to the grant of succession certificate in favour of the said applicant he may appear and file objections in writing, in person or through duly appointed pleader, on the said date and time. Given under my hand and seal on **22.08.2023.**

Seal **Sd/- Additional District Judge-05, Central, Tis Hazari Courts, Delhi.**

एमएसएमई को बचाने के लिए जीएसटी की समान दर लागू करने, औद्योगिक केंद्र बनाने की जरूरत : राहुल

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उट्टी में चॉकलेट बनाने वाली एक फैक्टरी के हालिया दौरा का वीडियो साझा करते हुए रविवार को कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बचाने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की समान दर लागू करने और औद्योगिक केंद्र बनाने की जरूरत है। राहुल ने इस महीने की शुरुआत में अपनी लोकसभा सदस्यता बहाल होने के

सोनिया ने डल झील में तैरते

उद्यानों का दौरा किया

श्रीनगर, (भाषा)। जम्मू-कश्मीर की निजी यात्रा पर आई कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को श्रीनगर में डल झील में प्रसिद्ध तैरते उद्यानों का दौरा किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों बताया कि सोनिया दिन निकलने के साथ ही शिकारा (एक प्रकार की नाव) में सवार होकर तैरते उद्यानों पर पहुंची। लद्दाख की अपनी आठ दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद राहुल गांधी भी इस समय कश्मीर में हैं। उन्होंने भी शानिवार को तैरते उद्यानों का दौरा किया था। सोनिया ने बाद में डल झील के किनारे स्थित निशात और शालीमार मुगल गार्डन का दौरा किया।

Public Notice
We 1) Ashok Kumar son of Late Shri Shiv Kumar Sharma & Smt. Kamlesh Sharma both resident of 4980, Gali No. 5, Mohalla Kaushik Pun, Old Seelampur, Delhi-110031, declare that we have dissolved and debarred our son Dhruv Sharma son of Ashok Kumar Sharma due to his misbehavior, mal treatment, using abusive & filthy language etc. from all our moveable and immovable properties. For the last 40 years our son is not residing with us. We have also severed all our relations with him. We shall not be responsible for any of his acts or deeds in any manner in future. I / any one else deal with him then the same shall be at their/his/his own risk, cost and consequences.
Ashok Kumar & Kamlesh

Proclamation Requiring Attendance of Defendant (Order 5, Rule 20 of The Code of Civil Procedure) In The Court of Sh. Sanjay Sharma-I, District Judge (Commercial Court), (East) Room No.12, Karkardooma Courts, Delhi. Case No. CS (COMM) No. 125/2023 State Bank of India V/s Nisha Aggarwal To, Ms. Nisha Aggarwal W/o Sh. Vikas Aggarwal, F-177, 1st Floor, Gali No.24, Near Sethi Dharmshala, Mangal Bazar, Laxmi Nagar, Delhi-110092. Mobile No. 7289947571. Whereas above named Plaintiff has instituted a suit against you. You are hereby summoned to appear before this court in person or by pleader on **13.09.2023 at 10:00 AM to answer the same. Take notice that, in default of your appearance on that day before mentioned, the suit will be heard and determined in your absence. Given under my hand and the seal of the Court, this **10th day of August, 2023.****

Seal **Sd/- District Judge (Commercial Court), (East), Karkardooma Courts, Delhi.**

Seal **Sd/- District Judge (Commercial Court), (East), Karkardooma Courts, Delhi.**

Seal **Sd/- District Judge (Commercial Court), (East), Karkardooma Courts, Delhi.**

बाद अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड जाते समय उट्टी के सबसे प्रसिद्ध ग्रांड में से एक -मोडीज चॉकलेट्स-की फैक्टरी का दौरा किया था।

कांग्रेस की ओर से जारी बयान में राहुल के बहाने से कहा गया है, हाल ही में वायनाड जाते समय मुझे उट्टी के सबसे प्रसिद्ध ग्रांड में से एक-मोडीज चॉकलेट्स की फैक्टरी का दौरा करने का आनंददायक अनुभव मिला। इस छोटे से व्यवसाय के पीछे मुरलीधर राव और उनकी पत्नी स्वामिती की उद्यमशीलता की कहानी प्रेरणादायक है। कांग्रेस नेता ने कहा कि दंपति के साथ काम करने वाली महिलाओं की टीम भी उतनी ही शानदार है और 70 महिलाओं की

सम्पत्ति टीम द्वारा तैयार की जाने वाली सबसे उत्तम चॉकलेट जैसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा।

उन्होंने कहा, हालांकि, पूरे भारत में अनगिनत अन्य छोटे और मध्यम उद्यमों की तरह मोडीज भी गम्बर सिंह टेक्स का बोझ झेल रही है। राहुल ने जोर देते हुए कहा कि सामूहिक रूप से भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इन एमएसएमई को बचाने के लिए जीएसटी की एक समान दर लागू करने और औद्योगिक केंद्र बनाने जैसे अनिवार्य उपाय करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस तरह की महिला नेतृत्व वाली टीम हरसंभव समर्थन की हदकरा है।

त्राण वसूली अधिकरण-1, दिल्ली

चौथा तल, जीवन्त तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
अधे नं. 196 / 2019
सेक्टर बैंक ऑफ इंडियाआवेदक
अजय कुमारप्रतिवादी

(1) अजय कुमार
प्लॉट नं.103, वीएस इन्टरलोक, न्याय खण्ड-1, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

(2) श्रीमती माधुरी पांडेय
प्लॉट नं.103, वीएस इन्टरलोक, न्याय खण्ड-1, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

(3) एबीजे डेवलपर्स प्रा. लि.
प्लॉट नं. 1, सामुदायिक केंद्र आनंद विहार, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने, दिल्ली-110092

(4) श्रीमती आर्डीई एवं "पासवर्ड" अगली सुनवाई की तिथि के लिए रजिस्ट्रार/वसूली अधिकारी-1 और वसूली अधिकारी-2 द्वारा द्या मानकों में डीआरटी आधिकारिक "पॉलिट डर्ट.गोव" पर पब्लिक नोटिस हेड के अंतर्गत सुनवाई की एक तिथि पूर्व उपलब्ध होगी।

(5) किसी भी आपातकालीन स्थिति में एवटोकेट्स/लिटिगेंट्स संबंधित अधिकारी से फोन नं. 011-23748473 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
आज 28 जुलाई 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मोहर के साथ जारी किया गया।

प्रतिवादी अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित फोन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं।
श्री अमित के. दर, एल.डी. रजिस्ट्रार, डीआरटी-1, नई दिल्ली, फोन नं. 011-23748473.
अधिकरण के आदेशानुसार क्लर्क रजिस्ट्रार

In The Court of Ms. Neha Priya, Commercial Civil Judge-cum-Addl. Rent Controller-cum-Administrative Civil Judge South District, Room No. 204, Saket Court Complex, New Delhi. Succ. P. No. 91/2023

NDOH: 03.10.2023 Smt. Savita Vs State & Ors. (Memo of Origin)
Smt. Savita W/o Rahul D/o Late Sh. Satpal R/o H. No. C-250, J.J. Camp, Tigr, New Delhi-110062

Also at: H. No. F-472, J.J. Camp Tigr, New Delhi.Petitioners Versus

1. The State, Through SDM, Kalkaji, Near Batra Hospital, New Delhi.

2. The Deputy Commissioner South Municipal Corporation of Delhi, South, South Zone, Green Park, New Delhi-110016.

3. Smt. Ajay Shree W/o Mukesh D/o Late Sh. Satpal, R/o H. No. F-472, J.J. Camp, Tigr, New Delhi-110062.

4. Smt. Lata Rani W/o Shailendra Kumar, D/o Late Sh. Satpal, R/o H. No. Ward No. 1, House No. 15, Mohalla Harijan Balmiki, Purana Kasba, Bagpat, Uttar Pradesh-250609.

5. Sh. Ajay Kumar S/o Late Sh. Satpal, R/o H. No. I-253, J.J. Camp, Tigr, New Delhi-110062.

6. Sh. Ajeet Kumar, S/o Late Sh. Satpal, R/o H. No. C-250, J.J. Camp, Tigr, New Delhi-110062.

7. Sh. Vijay Kumar S/o Late Sh. Satpal, R/o H. No. C-250, J.J. Camp, Tigr, New Delhi-110062.

.....Respondents
To, The State/General Public
Whereas, an application U/S 372 of the Indian Succession Act, 1925 has been made by **Smt. Savita**, claiming to be successor of **W/o Late Sh. Satpal**, for grant of Succession Certificate in respect of debts/securities of said deceased. And whereas the said applicant shall come for hearing on **03rd October 2023 at 10.00 A.M.** Therefore, the public at large is hereby given notice if any person has objection to the grant of succession certificate in favour of the said applicant, he may appear and file objections in writing, in person or through duly appointed pleader, on the said date and time. Given under my hand and the seal of the Court on this **17th day August 2023.**

Seal **Sd/- Commercial Civil Judge cum Addl. Rent Controller cum Administrative Civil Judge South District, Saket Court Complex, New Delhi.**

In The Court of Ms. Neha Priya, Commercial Civil Judge-cum-Addl. Rent Controller-cum-Administrative Civil Judge South District, Room No. 204, Saket Court Complex, New Delhi. Succ. P. No. 91/2023

NDOH: 03.10.2023 Smt. Savita Vs State & Ors. (Memo of Origin)
Smt. Savita W/o Rahul D/o Late Sh. Satpal R/o H. No. C-250, J.J. Camp, Tigr, New Delhi-110062

Also at: H. No. F-472, J.J. Camp Tigr, New Delhi.Petitioners Versus

1. The State, Through SDM, Kalkaji, Near Batra Hospital, New Delhi.

2. The Deputy Commissioner South Municipal Corporation of Delhi, South, South